

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जनवरी 2015—माघ 10, शक 1936

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2015

क्र. एफ 65-01-2014-तीन-न.पा.-187-संशोधन.—कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला हरदा के पत्र क्र. 44/स्था.निर्वा./2015, दिनांक 6 जनवरी 2015 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 29 दिसम्बर 2014 के मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र क्र. 632 के पेज क्र. 1264 में प्रकाशित अधिसूचना में नगर परिषद् खिरकिया के नव-निर्वाचित पार्षदों के परिणामों में वार्ड क्र. 6 के पार्षद “सुमित (डम्पी) S/o चन्द्रकांत नागड़ा” भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर त्रुटिवश उनका नाम “मुमित (डम्पी) S/o चन्द्रकांत नागड़ा, भारतीय जनता पार्टी प्रकाशित हो गया है. अतः संशोधित अधिसूचना “सुमित (डम्पी) S/o चन्द्रकांत नागड़ा” भारतीय जनता पार्टी पढ़ा जावे.

गिरीश शर्मा,
उपसचिव,
मध्यप्रदेश, राज्य निर्वाचन आयोग.